



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 7, 2007/माघ 18, 1928

No. 128]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 7, 2007/MAGHA 18, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2007

का.आ. 144(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सीपज विशेष आर्थिक जोन, मुम्बई के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात् :-

- | | |
|---|----------------|
| 1. विकास आयुक्त, सीपज विशेष आर्थिक जोन | अध्यक्ष, पदेन |
| 2. निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग | सदस्य, पदेन |
| 3. क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक, सीपज | सदस्य, पदेन |
| 4. सीमाशुल्क पत्तन आयुक्त, मुम्बई अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा | सदस्य, पदेन |
| 5. आयकर आयुक्त (जिनका एसईजेड पर भू-मागीय क्षेत्राधिकार है अथवा उनका नामिती जिसका स्तर अनुमोदन समिति में संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा) | सदस्य, पदेन |
| 6. निदेशक (बैंकिंग), बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार | सदस्य, पदेन |
| 7. विकास आयुक्त (उद्योग) महाराष्ट्र सरकार | सदस्य, पदेन |
| 8. संयुक्त सचिव (उद्योग) महाराष्ट्र सरकार | सदस्य, पदेन |
| 9. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम का प्रतिनिधि | विशेष आमंत्रित |

2. विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त की अनुपस्थिति में उनका प्रतिनिधित्व वह अधिकारी करेगा जिसका स्तर संयुक्त विकास आयुक्त से कम नहीं होगा।

[सं. एफ. 1/1/2006-ईपीजेड]

भारती एस. सिहाग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2007

S. O. 144(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the SEEPZ Special Economic Zone, Mumbai for the purposes of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—

1. Development Commissioner, SEEPZ Special Economic Zone	Chairperson, Ex-officio
2. Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce	Member, Ex-officio
3. Zonal Joint Director General of Foreign Trade, Mumbai	Member, Ex-officio
4. Commissioner of Customs Airport, Mumbai or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	Member, Ex-officio
5. Commissioner of Income-Tax (having territorial Jurisdiction over the SEZ or his nominee not below the rank of Joint Commissioner in the Approval Committee)	Member, Ex-officio
6. Director (Banking) Government of India, Ministry of Finance, Banking Division	Member, Ex-officio
7. Development Commissioner (Industries), Government of Maharashtra	Member, Ex-officio
8. Joint Secretary (Industries), Government of Maharashtra	Member, Ex-officio
9. Representative of Maharashtra Industrial Development Corporation	Special Invitee

2. In the absence of Development Commissioner of the Special Economic Zone, an officer not below the rank of Joint Development Commissioner will represent him.

[No.F. 1/1/2006-EPZ]

BHARATHI S. SIHAG, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2007

का.आ. 145(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ मुरादाबाद विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात् :—

1. विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक जोन	अध्यक्ष, पदेन
2. निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग	सदस्य, पदेन
3. संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक, मुरादाबाद	सदस्य, पदेन
4. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा)	सदस्य, पदेन
5. आयकर आयुक्त (जिनका एसईजेड पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार है अथवा उनका नामिती जिसका स्तर अनुमोदन समिति में संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा)	सदस्य, पदेन
6. निदेशक (बैंकिंग), बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य, पदेन
7. सचिव, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य, पदेन
8. संबंधित विशेष आर्थिक जोन अथवा संबंधित जिला उद्योग विकास प्राधिकरण अथवा निगम, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य कार्यपालन अधिकारी	सदस्य, पदेन
9. उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (मुरादाबाद विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता) का एक प्रतिनिधि	विशेष आमंत्रिती

2. विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त की अनुपस्थिति में उनका प्रतिनिधित्व वह अधिकारी करेगा जिसका स्तर संयुक्त विकास आयुक्त से कम नहीं होगा।

[सं. एफ. 1/1/2006-ईपीजेड]

भारती एस. सिहाग, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2007

S. O. 145(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the Moradabad Special Economic Zone for the purposes of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Development Commissioner, Noida Special Economic Zone | Chairperson, Ex-officio |
| 2. Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce | Member, Ex-officio |
| 3. Joint Director General of Foreign Trade, Moradabad | Member, Ex-officio |
| 4. Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction of the Special Economic Zone, Central Board of Excise and Customs, Ministry of Finance, Department of Revenue or his nominee not below the rank of Joint Commissioner | Member, Ex-officio |
| 5. Commissioner of Income-Tax (having territorial Jurisdiction over the SEZ or his nominee not below the rank of Joint Commissioner in the Approval Committee) | Member, Ex-officio |
| 6. Director (Banking) Government of India, Ministry of Finance, Banking Division | Member, Ex-officio |
| 7. Secretary, Industries Department, Government of Uttar Pradesh | Member, Ex-officio |
| 8. Chief Executive Officer of the concerned Special Economic Zone or the concerned District Industries Development Authority or Corporation, Government of U. P. | Member, Ex-officio |
| 9. A representative of Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation (Developer of Moradabad Special Economic Zone) | Special Invitee |

2. In the absence of Development Commissioner of the Special Economic Zone, an officer not below the rank of Joint Development Commissioner will represent him.

[No. F. 1/1/2006-EPZ]

BHARATHI S. SIHAG, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2007

का.आ. 146(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ कांडला विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं अर्थात् :—

- | | |
|---|---------------|
| 1. विकास आयुक्त, कांडला विशेष आर्थिक जोन | अध्यक्ष, पदेन |
| 2. निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग | सदस्य, पदेन |
| 3. संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक, राजकोट | सदस्य, पदेन |
| 4. सीमाशुल्क आयुक्त, कांडला अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा | सदस्य, पदेन |
| 5. आयकर आयुक्त (जिनका एसईजेड पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार है अथवा उनका नामिती जिसका स्तर अनुमोदन समिति में संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा) | सदस्य, पदेन |
| 6. निदेशक (बैंकिंग), बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार | सदस्य, पदेन |
| 7. कच्छ जिला, गुजरात सरकार के जिलाधिकारी अथवा अपर जिलाधिकारी अथवा उप-जिलाधिकारी | सदस्य, पदेन |
| 8. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कच्छ जिला, गुजरात सरकार | सदस्य, पदेन |

2. विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त की अनुपस्थिति में उनका प्रतिनिधित्व वह अधिकारी करेगा जिसका स्तर संयुक्त विकास आयुक्त से कम नहीं होगा।

[सं. एफ. 1/1/2006-ईपीजेड]

भारती एस. सिहाग, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2007

S. O. 146(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the Kandla Special Economic Zone for the purposes of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Development Commissioner, Kandla Special Economic Zone | Chairperson, Ex-officio |
| 2. Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce | Member, Ex-officio |
| 3. Joint Director General of Foreign Trade, Rajkot | Member, Ex-officio |
| 4. Commissioner of Customs, Kandla or his nominee not below the rank of Joint Commissioner | Member, Ex-officio |
| 5. Commissioner of Income-Tax (having territorial jurisdiction over the SEZ or his nominee not below the rank of Joint Commissioner in the Approval Committee) | Member, Ex-officio |
| 6. Director (Banking) Government of India, Ministry of Finance, Banking Division | Member, Ex-officio |
| 7. District Collector or Additional District Collector or Deputy Collector of Kutch District, Government of Gujarat | Member, Ex-officio |
| 8. General Manager, District Industries Centre of the Kutch District, Government of Gujarat | Member, Ex-officio |

2. In the absence of Development Commissioner of the Special Economic Zone, an officer not below the rank of Joint Development Commissioner will represent him.

[No. F. 1/1/2006-EPZ]

BHARATHI S. SIHAG, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2007

का.आ. 147(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ जोधपुर विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं अर्थात् :—

- | | |
|---|----------------|
| 1. विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक जोन | अध्यक्ष, पदेन |
| 2. निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग | सदस्य, पदेन |
| 3. संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक, जोधपुर | सदस्य, पदेन |
| 4. सीमाशुल्क आयुक्त, जोधपुर अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा | सदस्य, पदेन |
| 5. आयकर आयुक्त (जिनका एसईजेड पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार है अथवा उनका नामिती जिसका स्तर अनुमोदन समिति में संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा) | सदस्य, पदेन |
| 6. निदेशक (बैंकिंग), बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार | सदस्य, पदेन |
| 7. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार | सदस्य, पदेन |
| 8. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, राजस्थान सरकार | सदस्य, पदेन |
| 9. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, (जोधपुर विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता) का एक प्रतिनिधि | विशेष आमंत्रित |

2. विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त की अनुपस्थिति में उनका प्रतिनिधित्व वह अधिकारी करेगा जिसका स्तर संयुक्त विकास आयुक्त से कम नहीं होगा।

[सं. एफ. 1/1/2006-ईपीजेड]

भारती एस. सिहाग, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2007

S. O. 147(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the Jodhpur Special Economic Zone for the purposes of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—

1. Development Commissioner, Noida Special Economic Zone	Chairperson, Ex-officio
2. Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce	Member, Ex-officio
3. Joint Director General of Foreign Trade, Jodhpur	Member, Ex-officio
4. Commissioner of Customs, Jodhpur or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	Member, Ex-officio
5. Commissioner of Income-Tax (having territorial jurisdiction over the SEZ or his nominee not below the rank of Joint Commissioner in the Approval Committee)	Member, Ex-officio
6. Director (Banking) Banking Division, Ministry of Finance, Government of India	Member, Ex-officio
7. Commissioner, Industries Department, Government of Rajasthan	Member, Ex-officio
8. Managing Director, Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Ltd., Government of Rajasthan	Member, Ex-officio
9. A Representative of Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Ltd., (Developer of Jodhpur Special Economic Zone)	Special Invitee

2. In the absence of Development Commissioner of the Special Economic Zone, an officer not below the rank of Joint Development Commissioner will represent him.

[No.F. 1/1/2006-EPZ]

BHARATHI S. SIHAG, Jt. Secy.

अभिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2007

क्र.आ. 148(अ).—विशेष आर्थिक ज़ोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ कोचीन विशेष आर्थिक ज़ोन कोचीन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं अर्थात् :—

1. विकास आयुक्त, कोचीन विशेष आर्थिक ज़ोन	अध्यक्ष, पदेन
2. निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग	सदस्य, पदेन
3. संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक, कोचीन	सदस्य, पदेन
4. सीमाशुल्क पत्तन आयुक्त, कोचीन अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
5. आयकर आयुक्त (जिनका एसईजेड पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार है अथवा उनका नामिती जिसका स्तर अनुमोदन समिति में संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा)	सदस्य, पदेन
6. निदेशक (बैंकिंग), बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य, पदेन
7. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, केरल सरकार	सदस्य, पदेन
8. उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक, केरल सरकार	सदस्य, पदेन

2. विशेष आर्थिक ज़ोन के विकास आयुक्त की अनुपस्थिति में उनका प्रतिनिधित्व वह अधिकारी करेगा जिसका स्तर संयुक्त विकास आयुक्त से कम नहीं होगा।

[सं. एफ. 1/1/2006-ईपीजेड]

भारती एस. सिहाग, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2007

S. O. 148(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the Cochin Special Economic Zone Cochin for the purposes of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—

1. Development Commissioner, Cochin Special Economic Zone	Chairperson, Ex-officio
2. Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce	Member, Ex-officio
3. Joint Director General of Foreign Trade, Cochin	Member, Ex-officio
4. Commissioner of Customs, Cochin or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	Member, Ex-officio
5. Commissioner of Income-Tax (having territorial jurisdiction over the SEZ or his nominee not below the rank of Joint Commissioner in the Approval Committee)	Member, Ex-officio
6. Director (Banking) Government of India, Ministry of Finance, Banking Division	Member, Ex-officio
7. Principal Secretary, Industries Department, Government of Kerala	Member, Ex-officio
8. Director of Industries and Commerce, Government of Kerala	Member, Ex-officio

2. In the absence of Development Commissioner of the Special Economic Zone, an officer not below the rank of Joint Development Commissioner will represent him.

[No. F. 1/1/2006-EPZ]

BHARATHI S. SIHAG, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2007

का.आ. 149(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक जोन विशाखापत्तनम के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं अर्थात् :—

1. विकास आयुक्त, विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक जोन	अध्यक्ष, पदेन
2. निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग	सदस्य, पदेन
3. संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक, विशाखापत्तनम	सदस्य, पदेन
4. सीमाशुल्क पत्तन आयुक्त, विजाग अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
5. आयकर आयुक्त (जिनका एसईजेड पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार है अथवा उनका नामिती जिसका स्तर अनुमोदन समिति में संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा)	सदस्य, पदेन
6. निदेशक (बैंकिंग), बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य, पदेन
7. आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले आन्ध्र प्रदेश सरकार के दो अधिकारी जिनका स्तर आन्ध्र प्रदेश सरकार के संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन

2. विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त की अनुपस्थिति में उनका प्रतिनिधित्व वह अधिकारी करेगा जिसका स्तर संयुक्त विकास आयुक्त से कम नहीं होगा।

[सं. एफ. 1/1/2006-ईपीजेड]

भारती एस. सिहाग, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2007

S. O. 149(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the Vishakhapatnam Special Economic Zone Vishakhapatnam for the purposes of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—

1. Development Commissioner, Vishakhapatnam Special Economic Zone	Chairperson, Ex-officio
2. Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce	Member, Ex-officio
3. Joint Director General of Foreign Trade, Vishakhapatnam	Member, Ex-officio
4. Commissioner of Customs, Vizag or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	Member, Ex-officio
5. Commissioner of Income-Tax (having territorial jurisdiction over the SEZ or his nominee not below the rank of Joint Commissioner in the Approval Committee)	Member, Ex-officio
6. Director (Banking) Government of India, Ministry of Finance, Banking Division	Member, Ex-officio
7. Two officers of the Government of Andhra Pradesh to be nominated by that Government, not below the rank of Joint Secretary to the Government of Andhra Pradesh	Member, Ex-officio

2. In the absence of Development Commissioner of the Special Economic Zone, an officer not below the rank of Joint Development Commissioner will represent him.

[No. F. 1/1/2006-EPZ]

BHARATHI S. SIHAG, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2007

का.आ. 150(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ फाल्ट्य विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं अर्थात् :—

1. विकास आयुक्त, फाल्ट्य विशेष आर्थिक जोन	अध्यक्ष, पदेन
2. निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग	सदस्य, पदेन
3. क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक, कोलकाता	सदस्य, पदेन
4. सीमाशुल्क पत्तन आयुक्त, कोलकाता अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
5. आयकर आयुक्त (जिनका एसईजेड पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार है अथवा उनका नामिती जिसका स्तर अनुमोदन समिति में संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा)	सदस्य, पदेन
6. निदेशक (बैंकिंग), बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य, पदेन
7. पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले पश्चिम बंगाल सरकार के दो अधिकारी जिनका स्तर पश्चिम बंगाल सरकार के संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन

2. विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त की अनुपस्थिति में उनका प्रतिनिधित्व वह अधिकारी करेगा जिसका स्तर संयुक्त विकास आयुक्त से कम नहीं होगा।

[सं. एफ. 1/1/2006-ईपीजेड]

भारती एस. सिहाग, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2007

S. O. 150(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the Falta Special Economic Zone for the purposes of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely:—

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Development Commissioner, Flata Special Economic Zone | Chairperson, Ex-officio |
| 2. Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce | Member, Ex-officio |
| 3. Zonal Joint Director General of Foreign Trade, Kolkata | Member, Ex-officio |
| 4. Commissioner of Customs Airport, Kolkata or his nominee not below the rank of Joint Commissioner | Member, Ex-officio |
| 5. Commissioner of Income-Tax (having territorial jurisdiction over the SEZ or his nominee not below the rank of Joint Commissioner in the Approval Committee) | Member, Ex-officio |
| 6. Director (Banking) Government of India, Ministry of Finance, Banking Division | Member, Ex-officio |
| 7. Two officers of the Government of West Bengal to be nominated by that Government, not below the rank of Joint Secretary to the Government of West Bengal. | Member, Ex-officio |

2. In the absence of Development Commissioner of the Special Economic Zone, an officer not below the rank of Joint Development Commissioner will represent him.

[No. F. 1/1/2006-EPZ]

BHARATHI S. SIHAG, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2007

का.आ. 151(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नोएडा विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं अर्थात्:—

- | | |
|---|---------------|
| 1. विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक जोन | अध्यक्ष, पदेन |
| 2. निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग | सदस्य, पदेन |
| 3. क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक, दिल्ली | सदस्य, पदेन |
| 4. सीमाशुल्क पत्तन आयुक्त, दिल्ली अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा | सदस्य, पदेन |
| 5. आयकर आयुक्त (जिनका एसईजेड पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार है अथवा उनका नामिती जिसका स्तर अनुमोदन समिति में संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा) | सदस्य, पदेन |
| 6. निदेशक (बैंकिंग), बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार | सदस्य, पदेन |
| 7. सचिव, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार | सदस्य, पदेन |
| 8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नोएडा, उत्तर प्रदेश सरकार | सदस्य, पदेन |

2. विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त की अनुपस्थिति में उनका प्रतिनिधित्व वह अधिकारी करेगा जिसका स्तर संयुक्त विकास आयुक्त से कम नहीं होगा।

[सं. एफ. 1/1/2006-ईपीजेड]

भारती एस. सिहाग, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2007

S. O. 151(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the Noida Special Economic Zone for the purposes of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—

1. Development Commissioner, Noida Special Economic Zone	Chairperson, Ex-officio
2. Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce	Member, Ex-officio
3. Zonal Joint Director General of Foreign Trade, Delhi	Member, Ex-officio
4. Commissioner of Customs airport, Delhi or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	Member, Ex-officio
5. Commissioner of Income-Tax (having territorial jurisdiction over the SEZ or his nominee not below the rank of Joint Commissioner in the Approval Committee)	Member, Ex-officio
6. Director (Banking) Banking Division, Ministry of Finance, Government of India	Member, Ex-officio
7. Secretary, Department of Industry, Government of Uttar Pradesh	Member, Ex-officio
8. Chief Executive Officer, Noida, Government of Uttar Pradesh	Member, Ex-officio

2. In the absence of Development Commissioner of the Special Economic Zone, an officer not below the rank of Joint Development Commissioner will represent him.

[No. F. 1/1/2006-EPZ]

BHARATHI S. SIHAG, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2007

क्र.आ. 152(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ एमईपीजेड विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात् :—

1. विकास आयुक्त, एमईपीजेड विशेष आर्थिक जोन	अध्यक्ष, पदेन
2. निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग	सदस्य, पदेन
3. क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक, चेन्नई	सदस्य, पदेन
4. सीमाशुल्क पत्तन आयुक्त, चेन्नई अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
5. आयकर आयुक्त (जिनका एसईजेड पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार है अथवा उनका नामिती जिसका स्तर अनुमोदन समिति में संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा)	सदस्य, पदेन
6. निदेशक (बैंकिंग), बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य, पदेन
7. सचिव, उद्योग विभाग, तमिलनाडु सरकार	सदस्य, पदेन
8. निदेशक, तमिलनाडु औद्योगिक मार्गदर्शन एवं निर्यात संवर्धन ब्यूरो, तमिलनाडु सरकार	सदस्य, पदेन

2. विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त की अनुपस्थिति में उनका प्रतिनिधित्व वह अधिकारी करेगा जिसका स्तर संयुक्त विकास आयुक्त से कम नहीं होगा।

[सं. एफ. 1/1/2006-ईपीजेड]

388 GI/07-2

भारती एस. सिहाग, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2007

S. O. 152(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the MEPZ Special Economic Zone for the purposes of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—

1. Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone	Chairperson, Ex-officio
2. Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce	Member, Ex-officio
3. Zonal Joint Director General of Foreign Trade, Chennai.	Member, Ex-officio
4. Commissioner of Customs Airport, Chennai or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	Member, Ex-officio
5. Commissioner of Income-Tax (having territorial jurisdiction over the SEZ or his nominee not below the rank of Joint Commissioner in the Approval Committee).	Member, Ex-officio
6. Director (Banking) Government of India, Ministry of Finance, Banking Division	Member, Ex-officio
7. Secretary, Industries Department, Government of Tamil Nadu	Member, Ex-officio
8. Director, Tamil Nadu Industrial Guidance and Export Promotion Bureau, Government of Tamil Nadu	Member, Ex-officio

2. In the absence of Development Commissioner of the Special Economic Zone, an officer not below the rank of Joint Development Commissioner will represent him.

[No. F. 1/1/2006-EPZ]

BHARATHI S. SIHAQ, Jr. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2007

का.आ. 153(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अपरिल तथा फ़ेशन सहायक सामग्री के लिए महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं अर्थात् :—

1. विकास आयुक्त, एमईपीजेड विशेष आर्थिक जोन	अध्यक्ष, पदेन
2. निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग	सदस्य, पदेन
3. क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक, चेन्नई	सदस्य, पदेन
4. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
5. आयकर आयुक्त (जिनका एसईजेड पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार है अथवा उनका नामिती जिसका स्तर अनुमोदन समिति में संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा)	सदस्य, पदेन
6. निदेशक (बैंकिंग), बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य, पदेन
7. सचिव, उद्योग विभाग, तमिलनाडु सरकार	सदस्य, पदेन
8. निदेशक, तमिलनाडु औद्योगिक मार्गदर्शन एवं नियांत संवर्धन ब्यूरो, तमिलनाडु सरकार	सदस्य, पदेन
9. महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी डेवलपर्स लि. (जोन के विकासकर्ता) का एक प्रतिनिधि	विशेष आमंत्रित

2. विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त की अनुपस्थिति में उक्त प्रतिनिधित्व वह अधिकारी करेगा जिसका स्तर संयुक्त विकास आयुक्त से कम नहीं होगा।

[सं. एफ. 1/1/2006-ईपीजेड]

भारती एस. सिहाग, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2007

S. O. 153(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the Mahindra World City Special Economic Zone for Apparel and Fashion Accessories for the purposes of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone. | Chairperson, Ex-officio |
| 2. Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce. | Member, Ex-officio |
| 3. Zonal Joint Director General of Foreign Trade, Chennai. | Member, Ex-officio |
| 4. Commissioner of Central Excise having territorial jurisdiction of the Special Economic Zone Central Board of Excise and Customs, Ministry of Finance, Department of Revenue or his nominee not below the rank of Joint Commissioner. | Member, Ex-officio |
| 5. Commissioner of Income-Tax (having territorial jurisdiction over the SEZ or his nominee not below the rank of Joint Commissioner in the Approval Committee | Member, Ex-officio |
| 6. Director (Banking) Banking Division, Ministry of Finance, Government of India. | Member, Ex-officio |
| 7. Secretary, Industries Department, Government of Tamil Nadu. | Member, Ex-officio |
| 8. Director, Tamil Nadu Industrial Guidance and Export Promotion Bureau, Government of Tamil Nadu. | Member, Ex-officio |
| 9. A representative of the Mahindra World City Development Limited (Developer of the Zone) | Special invitee |

2. In the absence of Development Commissioner of the Special Economic Zone, an officer not below the rank of Joint Development Commissioner will represent him.

[No. F. 1/1/2006-EPZ]

BHARATHI S. SIHAG, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2007

का.आ. 154(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर तथा जैव-सूचना प्रौद्योगिकी के लिए महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात् :—

- | | |
|--|----------------|
| 1. विकास आयुक्त, एमईपीजेड विशेष आर्थिक जोन | अध्यक्ष, पदेन |
| 2. निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग | सदस्य, पदेन |
| 3. क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक, चेन्नई | सदस्य, पदेन |
| 4. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा | सदस्य, पदेन |
| 5. आयकर आयुक्त (जिनका एसईजेड पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार है अथवा उनका नामिती जिसका स्तर अनुमोदन समिति में संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा) | सदस्य, पदेन |
| 6. निदेशक (बैंकिंग), बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार | सदस्य, पदेन |
| 7. सचिव, उद्योग विभाग, तमिलनाडु सरकार | सदस्य, पदेन |
| 8. निदेशक, तमिलनाडु औद्योगिक मार्गदर्शन एवं निर्यात संवर्धन ब्यूरो, तमिलनाडु सरकार | सदस्य, पदेन |
| 9. महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी डेवलपर्स लि. (जोन के विकासकर्ता) का एक प्रतिनिधि | विशेष आमंत्रित |

2. विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त की अनुपस्थिति में उनका प्रतिनिधित्व वह अधिकारी करेगा जिसका स्तर संयुक्त विकास आयुक्त से कम नहीं होगा।

[सं. एफ. 1/1/2006-ईपीजेड]

भारती एस. सिहाग, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2007

S. O. 154(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the Mahindra World City Special Economic Zone for Information Technology, Hardware and Bio-informatics for the purposes of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone. | Chairperson, Ex-officio |
| 2. Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce. | Member, Ex-officio |
| 3. Zonal Joint Director General of Foreign Trade, Chennai. | Member, Ex-officio |
| 4. Commissioner of Central Excise having territorial jurisdiction of the Special Economic Zone Central Board of Excise and Customs, Ministry of Finance, Department of Revenue or his nominee not below the rank of Joint Commissioner. | Member, Ex-officio |
| 5. Commissioner of Income-Tax (having territorial jurisdiction over the SEZ or his nominee not below the rank of Joint Commissioner in the Approval Committee). | Member, Ex-officio |
| 6. Director (Banking) Banking Division, Ministry of Finance, Government of India. | Member, Ex-officio |
| 7. Secretary, Industries Department, Government of Tamil Nadu. | Member, Ex-officio |
| 8. Director, Tamil Nadu Industrial Guidance and Export Promotion Bureau, Government of Tamil Nadu. | Member, Ex-officio |
| 9. A representative of the Mahindra World City Developers Limited (Developer of the Zone). | Special Invitee |

2. In the absence of Development Commissioner of the Special Economic Zone, an officer not below the rank of Joint Development Commissioner will represent him.

[No. F. 1/1/2006-EPZ]

BHARATHI S. SIHAG, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2007

का.आ. 155(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ ऑटो अनुषंगी के लिए महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात् :—

- | | |
|--|----------------|
| 1. विकास आयुक्त, एमईपीजेड विशेष आर्थिक जोन | अध्यक्ष, पदेन |
| 2. निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग | सदस्य, पदेन |
| 3. क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक, चेन्नई | सदस्य, पदेन |
| 4. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा | सदस्य, पदेन |
| 5. आयकर आयुक्त (जिनका एसईजेड पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार है अथवा उनका नामिती जिसका स्तर अनुमोदन समिति में संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा) | सदस्य, पदेन |
| 6. निदेशक (बैंकिंग), बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार | सदस्य, पदेन |
| 7. सचिव, उद्योग विभाग, तमिलनाडु सरकार | सदस्य, पदेन |
| 8. निदेशक, तमिलनाडु औद्योगिक मार्गदर्शन एवं निर्यात संवर्धन ब्यूरो, तमिलनाडु सरकार | सदस्य, पदेन |
| 9. महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी डेवलपर्स लि. (जोन के विकासकर्ता) का एक प्रतिनिधि | विशेष आमंत्रित |

2. विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त की अनुपस्थिति में उनका प्रतिनिधित्व वह अधिकारी करेगा जिसका स्तर संयुक्त विकास आयुक्त से कम नहीं होगा।

[सं. एफ. 1/1/2006-ईपीजेड]

भारती एस. सिहाग, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2007

S.O. 155(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the Mahindra World City Special Economic Zone for Auto Ancillary for the purposes of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone. | Chairperson, Ex-officio |
| 2. Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce. | Member, Ex-officio |
| 3. Zonal Joint Director General of Foreign Trade, Chennai. | Member, Ex-officio |
| 4. Commissioner of Central Excise having territorial jurisdiction of the Special Economic Zone Central Board of Excise and Customs, Ministry of Finance, Department of Revenue or his nominee not below the rank of Joint Commissioner. | Member, Ex-officio |
| 5. Commissioner of Income-Tax (having territorial jurisdiction over the SEZ or his nominee not below the rank of Joint Commissioner in the Approval Committee). | Member, Ex-officio |
| 6. Director (Banking) Banking Division, Ministry of Finance, Government of India. | Member, Ex-officio |
| 7. Secretary, Industries Department, Government of Tamil Nadu. | Member, Ex-officio |
| 8. Director, Tamil Nadu Industrial Guidance and Export Promotion Bureau, Government of Tamil Nadu. | Member, Ex-officio |
| 9. A representative of the Mahindra World City Developers Limited (Developer of the Zone). | Special Invitee |

2. In the absence of Development Commissioner of the Special Economic Zone, an officer not below the rank of Joint Development Commissioner will represent him.

[No. F. 1/1/2006-EPZ]

BHARATHI S. SIHAG, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2007

का.आ. 156(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ मणिकचन विशेष आर्थिक जोन, साल्ट लैक, कोलकाता के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात् :—

- | | |
|--|----------------|
| 1. विकास आयुक्त, फाल्टा विशेष आर्थिक जोन | अध्यक्ष, पदेन |
| 2. निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग | सदस्य, पदेन |
| 3. क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक, कोलकाता | सदस्य, पदेन |
| 4. सीमाशुल्क पत्तन आयुक्त, कोलकाता अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा | सदस्य, पदेन |
| 5. आयकर आयुक्त (जिनका एसईजेड पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार है अथवा उनका नामिती जिसका स्तर अनुमोदन समिति में संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा) | सदस्य, पदेन |
| 6. निदेशक (बैंकिंग), बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार | सदस्य, पदेन |
| 7. पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले पश्चिम बंगाल सरकार के दो अधिकारी, जिनका स्तर पश्चिम बंगाल सरकार के संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा | सदस्य, पदेन |
| 8. पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, (मणिकचन विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता) का एक प्रतिनिधि | विशेष आमंत्रित |

2. विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त की अनुपस्थिति में उनका प्रतिनिधित्व वह अधिकारी करेगा जिसका स्तर संयुक्त विकास आयुक्त से कम नहीं होगा।

[सं. एफ. 1/1/2006-ईपीजेड]

भारती एस. सिहाग, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2007

S.O. 156(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the Manikanchan Special Economic Zone at Salt Lake, Kolkata for the purposes of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Development Commissioner, Falta Special Economic Zone. | Chairperson, Ex-officio |
| 2. Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce. | Member, Ex-officio |
| 3. Zonal Joint Director General of Foreign Trade, Kolkata. | Member, Ex-officio |
| 4. Commissioner of Customs Airport, Kolkata or his nominee not below the rank of Joint Commissioner. | Member, Ex-officio |
| 5. Commissioner of Income-Tax (having territorial jurisdiction over the SEZ or his nominee not below the rank of Joint Commissioner in the Approval Committee). | Member, Ex-officio |
| 6. Director (Banking) Banking Division, Ministry of Finance, Government of India. | Member, Ex-officio |
| 7. Two officers of the Government of West Bengal to be nominated by the Government, not below the rank of Joint Secretary to the Government of West Bengal. | Member, Ex-officio |
| 8. A representative of the West Bengal Industrial Development Corporation Limited (Developer of Manikanchan Special Economic Zone). | Special Invitee |

2. In the absence of Development Commissioner of the Special Economic Zone, an officer not below the rank of Joint Development Commissioner will represent him.

[No. F. 1/1/2006-EPZ]

BHARATHI S. SIHAG, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2007

का.आ. 157(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सूरत अपरिल पार्क के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात् :—

- | | |
|---|----------------|
| 1. विकास आयुक्त, कांडला विशेष आर्थिक जोन | अध्यक्ष, पदेन |
| 2. निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग | सदस्य, पदेन |
| 3. क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक, अहमदाबाद | सदस्य, पदेन |
| 4. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमाशुल्क अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा | सदस्य, पदेन |
| 5. आयकर आयुक्त (जिनका एसईजेड पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार है अथवा उनका नामिती जिसका स्तर अनुमोदन समिति में संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा) | सदस्य, पदेन |
| 6. निदेशक (बैंकिंग), बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार | सदस्य, पदेन |
| 7. सूरत जिले के जिलाधिकारी अथवा अपर जिलाधिकारी अथवा उप-जिलाधिकारी | सदस्य, पदेन |
| 8. महाप्रबंधक, जिला औद्योगिक केन्द्र, सूरत जिला | सदस्य, पदेन |
| 9. गुजरात औद्योगिक विकास निगम (सूरत अपरिल पार्क से विकासकर्ता) का एक प्रतिनिधि | विशेष आमंत्रित |

2. विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त की अनुपस्थिति में उनका प्रतिनिधित्व वह अधिकारी करेगा जिसका स्तर संयुक्त विकास आयुक्त से कम नहीं होगा।

[सं. एफ. 1/1/2006-ईपीजेड]

भारती एस. सिहाग, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2007

S.O. 157(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the Surat Apparel Park for the purposes of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely:—

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Development Commissioner, Kandla Special Economic Zone. | Chairperson, Ex-officio |
| 2. Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce. | Member, Ex-officio |
| 3. Zonal Joint Director General of Foreign Trade, Ahmedabad. | Member, Ex-officio |
| 4. Commissioner of Central Excise, Surat having territorial Jurisdiction of the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner. | Member, Ex-officio |
| 5. Commissioner of Income-Tax having territorial jurisdiction over the SEZ or his nominee not below the rank of Joint Commissioner in the Approval Committee). | Member, Ex-officio |
| 6. Director (Banking), Banking Division, Ministry of Finance, Government of India. | Member, Ex-officio |
| 7. District Collector or Additional District Collector or Deputy Collector of Surat District. | Member, Ex-officio |
| 8. General Manager, District Industries Centre of Surat District. | Member, Ex-officio |
| 9. A representative of Gujarat Industrial Development Corporation (Developer of Surat Apparel Park). | Special Invitee |

2. In the absence of Development Commissioner of the Special Economic Zone, an officer not below the rank of Joint Development Commissioner will represent him.

[No. F. 1/1/2006-EPZ]

BHARATHI S. SIHAG, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2007

का.आ. 158(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नोकिया विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात्:—

- | | |
|--|----------------|
| 1. विकास आयुक्त, एमईपीजेड विशेष आर्थिक जोन | अध्यक्ष, पदेन |
| 2. निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग | सदस्य, पदेन |
| 3. क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक, चैन्नई | सदस्य, पदेन |
| 4. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमाशुल्क अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उनका नामित जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा | सदस्य, पदेन |
| 5. आयकर आयुक्त (जिनका एमईजेड पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार है अथवा उनका नामित जिसका स्तर अनुमोदन समिति में संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा) | सदस्य, पदेन |
| 6. निदेशक (बैंकिंग), बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार | सदस्य, पदेन |
| 7. सचिव, उद्योग विभाग तमिलनाडु सरकार | सदस्य, पदेन |
| 8. निदेशक, तमिलनाडु औद्योगिक मार्गदर्शन एवं निर्यात संवर्धन ब्यूरो, तमिलनाडु सरकार | सदस्य, पदेन |
| 9. मैसर्स नोकिया इंडिया प्रा. लि. (नोकिया विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता) का एक प्रतिनिधि | विशेष आमंत्रित |

2. विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त की अनुपस्थिति में उनका प्रतिनिधित्व वह अधिकारी करेगा जिसका स्तर संयुक्त विकास आयुक्त से कम नहीं होगा।

[सं. एफ. 1/1/2006-ईपीजेड]

भारती एस. सिहाग, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2007

S. O. 158(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the Nokia Special Economic Zone for the purposes of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—

1. Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone	Chairperson, Ex-officio
2. Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce	Member, Ex-officio
3. Zonal Joint Director General of Foreign Trade, Chennai	Member, Ex-officio
4. Commissioner of Customs or Central Excise, having territorial Jurisdiction of the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner.	Member, Ex-officio
5. Commissioner of Income-Tax (having territorial Jurisdiction over the SEZ or his nominee not below the rank of Joint Commissioner in the Approval Committee)	Member, Ex-officio
6. Director (Banking), Banking Division, Ministry of Finance, Government of India,	Member, Ex-officio
7. Secretary, Industries Department, Government of Tamil Nadu	Member, Ex-officio
8. Director, Tamil Nadu Industrial Guidance and Export Promotion Bureau, Government of Tamil Nadu	Member, Ex-officio
9. A representative of M/s Nokia India Private Limited (Developer of Nokia Special Economic Zone).	Special Invitee

2. In the absence of Development Commissioner of the Special Economic Zone, an officer not below the rank of Joint Development Commissioner will represent him.

[No. F. 1/1/2006-EPZ]

BHARATHI S. SIHAG, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2007

का.आ. 159(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ इंदौर विशेष आर्थिक जोन, इंदौर के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं अर्थात् :—

1. विकास आयुक्त, इंदौर विशेष आर्थिक जोन	अध्यक्ष, पदेन
2. निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग	सदस्य, पदेन
3. संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक, भोपाल	सदस्य, पदेन
4. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, इंदौर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
5. आयकर आयुक्त (जिनका एसईजेड पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार है अथवा उनका नामिती जिसका स्तर अनुमोदन समिति में संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा)	सदस्य, पदेन
6. निदेशक (बैंकिंग), बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य, पदेन
7. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले मध्य प्रदेश सरकार के दो अधिकारी जिनका स्तर मध्य प्रदेश सरकार के संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
8. मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इंदौर लिमिटेड (इंदौर विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता) का एक प्रतिनिधि	विशेष आमंत्रिती

2. विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त की अनुपस्थिति में उनका प्रतिनिधित्व वह अधिकारी करेगा जिसका स्तर संयुक्त विकास आयुक्त से कम नहीं होगा।

[सं. एफ. 1/1/2006-ईपीजेड]

भारती एस. सिहाग, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2007

S. O. 159(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the Indore Special Economic Zone, Indore for the purposes of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Development Commissioner, Indore Special Economic Zone | Chairperson, Ex-officio |
| 2. Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce | Member, Ex-officio |
| 3. Joint Director General of Foreign Trade, Bhopal | Member, Ex-officio |
| 4. Commissioner of Central Excise, Indore having territorial jurisdiction of the Special Economic Zone Central Board of Excise and Customs, Ministry of Finance, Department of Revenue or his nominee not below the rank of Joint Commissioner. | Member, Ex-officio |
| 5. Commissioner of Income-Tax (having territorial Jurisdiction over the SEZ or his nominee not below the rank of Joint Commissioner in the Approval Committee) | Member, Ex-officio |
| 6. Director (Banking), Banking Division, Ministry of Finance, Government of India | Member, Ex-officio |
| 7. Two officers of the Government of Madhya Pradesh to be nominated by the Government, not below the rank of Joint Secretary to the Government of Madhya Pradesh | Member, Ex-officio |
| 8. A representative of M. P. Audyogik Kendra Vikas Nigam Indore Limited (Developer of Indore Special Economic Zone). | Special Invitee |

2. In the absence of Development Commissioner of the Special Economic Zone, an officer not below the rank of Joint Development Commissioner will represent him.

[No. F. 1/1/2006-EPZ]

BHARATHI S. SIHAG, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2007

का.आ. 160(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ जयपुर विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं अर्थात् :—

- | | |
|---|----------------|
| 1. विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक जोन | अध्यक्ष, पदेन |
| 2. निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग | सदस्य, पदेन |
| 3. संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक, जयपुर | सदस्य, पदेन |
| 4. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमाशुल्क अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा | सदस्य, पदेन |
| 5. आयकर आयुक्त (जिनका एसईजेड पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार है अथवा उनका नामिती जिसका स्तर अनुमोदन समिति में संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा) | सदस्य, पदेन |
| 6. निदेशक (बैंकिंग), बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार | सदस्य, पदेन |
| 7. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार | सदस्य, पदेन |
| 8. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, राजस्थान सरकार | सदस्य, पदेन |
| 9. राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं निवेश विकास निगम लिमिटेड, (जयपुर विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता) का एक प्रतिनिधि | विशेष आमंत्रित |

2. विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त की अनुपस्थिति में उनका प्रतिनिधित्व वह अधिकारी करेगा जिसका स्तर संयुक्त विकास आयुक्त से कम नहीं होगा।

[सं. एफ. 1/1/2006-ईपीजेड]

भारती एस. सिहाग, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2007

S. O. 160(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the Jaipur Special Economic Zone for the purposes of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Development Commissioner, Noida Special Economic Zone | Chairperson, Ex-officio |
| 2. Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce | Member, Ex-officio |
| 3. Joint Director General of Foreign Trade, Jaipur | Member, Ex-officio |
| 4. Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction or the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner | Member, Ex-officio |
| 5. Commissioner of Income-Tax (having territorial Jurisdiction over the SEZ or his nominee not below the rank of Joint Commissioner in the Approval Committee) | Member, Ex-officio |
| 6. Director (Banking) Banking Division, Ministry of Finance, Government of India | Member, Ex-officio |
| 7. Commissioner, Industries Department, Government of Rajasthan | Member, Ex-officio |
| 8. Managing Director, Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Ltd., Government of Rajasthan | Member, Ex-officio |
| 9. A Representative of Rajasthan State Industrial and Investment Development Corporation Limited., (Developer of Jaipur Special Economic Zone) | Special Invitee |

2. In the absence of Development Commissioner of the Special Economic Zone, an officer not below the rank of Joint Development Commissioner will represent him.

[No. F. 1/1/2006-EPZ]

BHARATHI S. SIHAG, Jt. Secy.